



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 11 जून, 2024

ज्येष्ठ 21, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या 12/2024/559/तीस-4-2024-30-4099(099)-229-2022

लखनऊ, 11 जून, 2024

अधिसूचना

प0आ0-123

चूँकि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन, केन्द्र सरकार द्वारा जारी मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा केन्द्र में स्क्रेप कराये जाने वाले समस्त प्रकार के गैर परिवहन एवं परिवहन यानों पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन संदेय शास्ति में अधिसूचना संख्या-7/2023/372/तीस-4-2023-30-4099(099)/229/2022, दिनांक 11 मार्च, 2023 द्वारा छूट प्रदान की गयी थी;

और चूँकि, पूर्वोक्त छूट पूर्वोक्त अधिसूचना के जारी किये जाने के दिनांक से 01 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 10 मार्च, 2024 तक प्रभावी थी;

और चूँकि, छूट की पूर्वोक्त अवधि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता अनुभव की जा चुकी है;

अतः, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, केन्द्र सरकार द्वारा जारी मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा केन्द्र में स्क्रेप कराये जाने वाले समस्त प्रकार के गैर परिवहन एवं परिवहन यानों पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन संदेय शास्ति में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करती हैं:

परन्तु यह कि पूर्वोक्त अधिसूचना में उक्त तालिका में दिये गये यानों पर शास्ति की छूट देय सम्पूर्ण कर पर अनुमन्य होगी।

(2) पूर्वोक्त अधिसूचना की सारणी में उक्त छूट, यान स्वामी को यान पर छूट के पश्चात संदेय एकमुश्त अवशेष धनराशि जमा करने पर ही उपलब्ध होगी।

(3) पूर्वोक्त अधिसूचना की सारणी में उक्त छूट, दिनांक 11 मार्च, 2024 से छः माह की अवधि अर्थात् दिनांक 10 सितम्बर, 2024 तक के लिए प्रभावी होगी।

आज्ञा से,
एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 12/2024/559/XXX-4-2024-30-4099(099)-229-2022, dated June 11, 2024

No. 12/2024/559/XXX-4-2024-30-4099(099)-229-2022

Dated Lucknow, June 11, 2024

WHEREAS under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997), the penalty payable under section 9 of the said Act, on all types of non-transport and transport vehicles to be scrapped at the Registered Vehicle Scrapping Facility Centre established under the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 issued by the Central Government, were exempted *vide* notification no. 7/2023/372/XXX-4-2023-30-4099(099)-229-2022 dated 11 March, 2023;

AND WHEREAS, the aforesaid exemption was effective for a period of one year from the date of issuing the aforesaid notification *i.e.* till March 10, 2024;

AND WHEREAS, there has been felt a need to extend the aforesaid period of exemption;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 3 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to provide 100% exemption in penalty payable under section 9 of the said Act, on all types of non-transport and transport vehicles, to be scrapped at the Registered Vehicle Scrapping Facility Centre established under the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 issued by the Central Government:

Provided that exemption of the penalty on the vehicles as said in the schedule of the aforesaid notification shall be admissible on the entire due tax.

(2) The exemption as said in the schedule of the aforesaid notification shall be available to the vehicle owner only on depositing the remaining amount in lump sum payable after the exemption.

(3) The exemption as said in the schedule of the aforesaid notification shall be effective for a period of six months from March 11, 2024 *i.e.* till September 10, 2024 the date of issue of this notification.

By order,
L. VENKATESHWAR LU,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 67 राजपत्र-2024-(231)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 1 सा0 परिवहन-2024-(232)-100 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।